



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 04.06.2022

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:—

जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक खीरी की अध्यक्षता में “संपूर्ण समाधान दिवस” का आयोजन



आज दिनांक 04.06.22 को माह के प्रथम शनिवार को जनपद के प्रत्येक तहसील स्तर पर “संपूर्ण समाधान दिवस” का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी खीरी, श्री महेन्द्र बहादुर सिंह व पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री संजीव सुमन द्वारा तहसील मोहम्मदी पर उपस्थित रहकर “संपूर्ण समाधान दिवस” की अध्यक्षता की गई। इस दौरान फरियादियों की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर जनशिकायतों की निष्पक्ष जाँच करके विधिक निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध रूप से निस्तारण करने तथा जिन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण उच्चाधिकारी स्तर से किया जाना है उन पर रिपोर्ट लगाकर सम्बंधित अधिकारी को प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारीगण द्वारा अपने-अपने सर्किल की तहसीलों में उपस्थित रहकर जनशिकायतों का निस्तारण कराया गया।

थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा, चोरी की योजना बनाते 03 नफर अभियुक्तों को चोरी करने का उपकरण व अवैध तमंचा-कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 04.06.2022 को थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम कोटवारा से चोरी की योजना बनाते 03 नफर अभियुक्तों नदीम अहमद, फुरका अली व संदीप कुमार को चोरी करने का उपकरण (सब्बल) व 03 अवैध तमंचा-कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना हैदराबाद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. नदीम अहमद पुत्र रज्जब अली नि0 रजागंज थाना गोला जनपद खीरी
2. फुरकान अली पुत्र आशिक अली नि0 रजागंज थाना गोला जनपद खीरी
3. संदीप कुमार पुत्र बाबूराम नि0 रजागंज थाना गोला जनपद खीरी

बरामदगी-

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 02 अदद अवैध तमंचा 12 बोर | 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर |
| 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर | 01 अदद आला नकब (सब्बल) |
| 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर | |

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- | | |
|---|--------------------|
| 1. प्र0नि0 थाना हैदराबाद, श्री प्रभातेश कुमार | 5. का0 देवेश कुमार |
| 2. उ0नि0 दुर्वेश कुमार | 6. का0 सुधीर कुमार |
| 3. उ0नि0 आलोक कुमार राय | 7. का0 हनु यादव |
| 4. का0 अरविन्द कुमार | |

थाना पलिया पुलिस द्वारा वांछित एवं 20,000 रुपये के इनामिया अभियुक्त साउद्दीन पुत्र सुद्दीन को अवैध तमंचा व कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी/इनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 04.06.2022 को थाना पलिया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 1226/11 धारा 363/366/368 भादवि में वांछित एवं 20,000 रुपये का इनामिया अभियुक्त साउद्दीन पुत्र सुद्दीन नि0 ग्राम अतरिया बडागांव थाना पलिया जनपद खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

साउद्दीन पुत्र सुद्दीन नि0 ग्राम अतरिया बडागांव थाना पलिया जनपद खीरी

बरामदगी का विवरण-

01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 294/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 अजीत कुमार सिंह थाना पलिया जनपद खीरी
2. कां0 सूरज कुमार
3. कां0 कमल कुमार
4. कां0 सुशील कुमार
5. कां0 अतुल दिवाकर

थाना नीमगांव पुलिस द्वारा, गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित अभियुक्त एजाज उर्फ छोटू भईया को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 04.06.2022 को थाना नीमगांव पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 182/22 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त एजाज उर्फ छोटू पुत्र इसहाक को गिरफ्तार कर माननीय न्या0 भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

एजाज उर्फ छोटू भईया पुत्र इसहाक नि0 ग्राम सेहरूआ थाना नीमगांव जनपद खीरी

थाना ईसानगर पुलिस द्वारा, हत्या के प्रयास की घटना में वांछित 04 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 04.06.2022 को थाना ईसानगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 297/22 धारा 147/148/149/307/323/452/504 भादवि में वांछित 04 नफर अभियुक्तगण उसमान, चुन्ना उर्फ जुबराइल, मुन्ना उर्फ इमरान व पप्पू को गिरफ्तार कर माननीय न्या0 भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. उसमान पुत्र रहमान नि0 लाखुन थाना ईसानगर जनपद खीरी
2. चुन्ना उर्फ जुबराइल पुत्र उसमान खां नि0 लाखुन थाना ईसानगर जनपद खीरी
3. मुन्ना उर्फ इमरान पुत्र उसमान नि0 लाखुन थाना ईसानगर जनपद खीरी
4. पप्पू पुत्र मोबीन नि0 लाखुन थाना ईसानगर जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 थाना ईसानगर, श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय
2. उ0नि0 कुलदीप सिंह
3. हे0का0 दीपक सिंह
4. हे0का0 राजेन्द्र पटेल
5. का0 पुनीत कुमार
6. म0का0 रुमा

थाना फरधान पुलिस द्वारा, वारंटी अभियुक्त ओमप्रकाश पुत्र प्यारेलाल को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 04.06.2022 को थाना फरधान पुलिस द्वारा अ0सं0 475/15 धारा 323/325/504 भादवि में वारंटी अभियुक्त ओमप्रकाश पुत्र प्यारेलाल निवासी गुमचीनी थाना फरधान जनपद खीरी को गिरफ्तार कर माननीय न्या0 भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अनूप कुमार मिश्रा
2. हे0का0 विनोद वर्मा
3. का0 विक्की सैनी
4. का0 अतुल कुमार

थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा-कारतूस बरामद कर अभियुक्त अजय पुत्र नत्थू लाल को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 03.06.2022 को थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा अभियुक्त अजय पुत्र नत्थूलाल के पास से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना मोहम्मदी पर मु0अ0सं0 364/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

अजय पुत्र नत्थूलाल निवासी सहजनिया थाना मोहम्मदी जनपद खीरी

बरामदगी-

01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर

01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा-कारतूस बरामद कर अभियुक्त रियाजुल अंसारी पुत्र अजीज अंसारी को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 03.06.2022 को थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा अभियुक्त रियाजुल अंसारी पुत्र अजीज अंसारी के पास से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना फूलबेहड़ पर मु0अ0सं0 255/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

रियाजुल अंसारी पुत्र अजीज अंसारी निवासी कुकरा थाना मैलानी जनपद खीरी

बरामदगी-

01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर

01 अदद कारतूस

थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा, अवैध चाकू बरामद कर अभियुक्त वाहिद पुत्र मुस्तफा को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 03.06.2022 को थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा अभियुक्त वाहिद पुत्र मुस्तफा के पास से 01 अदद अवैध चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना फूलबेहड़ पर मु0अ0सं0 256/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

वाहिद पुत्र मुस्तफा निवासी कुकरा थाना मैलानी जनपद खीरी

बरामदगी-

01 अदद अवैध चाकू

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

1. थाना फरधान पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 475/17 धारा 325/323/504 भादवि0 में वारण्टी अभियुक्त ओमप्रकाश पुत्र प्यारेलाल थाना फरधान जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया है।
2. थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 4035/16 धारा 323/504/506 भादवि0 में वारण्टी अभियुक्तगण 1. मायाराम पुत्र छेदू, 2. सन्तराम पुत्र छेदू निवासीगण ग्राम बसई थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया है।
3. थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 2374/14 धारा 379/323/504/506 भादवि0 में वारण्टी अभियुक्त जियाउद्दीन पुत्र माहिददीन थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया है।
4. थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 2543/14 धारा 147/149/307 भादवि0 में वारण्टी अभियुक्त शहनवाज पुत्र रफीक निवासी सुन्दरवल थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया है।

अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 266 लीटर अवैध शराब व 07 शराब भट्टी बरामद कर 17 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **266 लीटर अवैध** कच्ची शराब व **07 शराब भट्टी** बरामद कर **17 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **15 अभियोग** पंजीकृत किए गए।